CIN No.: L31300DL1985PLC022737





Bansal Wire Industries Limited

Manufacturers of Steel Wires
September 4, 2024

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street

Mumbai - 400 001

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, 5th Floor,

Plot No. C/1, Block G,

Bandra-Kurla Complex, Bandra (East)

Mumbai - 400 051

Scrip Code: 544209

Trading Symbol: BANSALWIRE

Sub: Newspaper Advertisement- Notice to Equity Shareholders

Re: Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015 ('Listing Regulations')

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, Please find enclosed herewith the copies of the advertisement published in "Financial Express" (English- all edition) and "Jansatta" (Hindi edition) newspapers, published on September 4, 2024, intimating Shareholders regarding the 39th AGM of the Company scheduled to be held on Monday, 30th September, 2024 via video-conferencing/ other audio-visual means, along with other related information.

re Indu

The above information is also available on the website of the Company www.bansalwire.com

We request you to take the above information on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Bansal Wire Industries Limited

(Sumit Gupta)

Company Secretary and Compliance Officer

Encl.: As Above

Regd. Office: F-3, Main Road, Shastri Nagar, Delhi-110052 Tel.: 011-23651891 - 93, Fax: 011-23651890

FINANCIAL EXPRESS

SWADESHI INDUSTRIES AND LEASING LTD

117, V Mall, Thakur Complex, Western Express Highway, Kandivali East. Mumbai 400 101. CIN: L46309MH1983PLC031246

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS FOR 40[™] ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 40th Annual General Meeting of the Shareholders of Swadeshi Industries And Leasing Limited will be held on Friday, 27th September, 2024 at 03.30 p.m. at the Registered Office of the Company at 117, V. Mall, thakur Complex, Kandivali East Mumbai 400101 to transact business as set out in the notice of AGM which is being circulated for convening this AGM. The Company has sent notice of AGM on 3rd September 2024, through electronic mode to the Members whose email address are registered with the Company/Depositories in accordance with the circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide Circular dated April 08 2020, April 13, 2020, May 05, 2020, January 13, 2021 and May 05, 2022 and SEBI circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021 and May 13, 2022. The Annual Report for the financial year 2023-2024 is available and can be downloaded from the Company's website www.swadeshiglobal.com and the website of National Securities Depository Limited (NSDL) www.evoting.nsdl.com.

In Compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEB (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended) the Members are provided with facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of AGM using electronic voting system (e-voting) provided by NSDL. The voting rights of members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on Friday, 20th September, 2024 ("cut-off date").

The remote e-voting period commences at 9.00 a.m. on 24nd September, 2024 and shall close at 5.00 p.m. on 26th september. 2024. During this period, Members may cast their votes electronically The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter Those members who shall be present in the AGM and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting and otherwise are not barred from doing so shall be eligible to vote through Polling during the AGM.

The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM but shall not be entitled to cast their votes again.

Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company and holds shares as of the cutoff date may obtain the Login ID and password by sending request to evoting@nsdl.co.in However, if he/she is already registered with NSDL for remote evoting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting

For details relating to remote e-voting please refer to the Notice of AGM, In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request to (Name of NSDL Official) at evoting@nsdl.co.in.

The details of the AGM are available on the website of the Company at www.swadeshiglobal.com, NSDL at www.evoting.nsdl.com, BSE Limited at www.bseindia.com.

Date: 03/09/2024 For Swadeshi Industries And Leasing Limited Place: Mumbai Gaurav Jain

DIN: 06794973 **Managing Director**

ACI INFOCOM LTD

Shop 109, 1st Floor, Dimple Arcade Premises CHS Ltd Asha Nagar, Thakur Complex, Kandivali East, Mumbai - 400101

GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended) the Members are provided with facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of AGM using electronic voting system (e-voting) provided by NSDL. The voting rights of members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on, 20nd September 2024 ("cut-off date").

September 2026 and shall close at 5.00 p.m. on Thursday 26th September 2024. During this period, Members may cast their votes electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. Those members who shall be present in the AGM and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting and otherwise are not barred from doing so shall be eligible to vote through Polling during the AGM.

the AGM may also attend/participate in the AGM but shall not be

Member of the Company after the Notice has been sent by the Company and holds shares as of the cutoff date may obtain the Login ID and password by sending request to evoting@nsdl.co.in However, if he/she is already registered with NSDL for remote evoting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting their Votes.

AGM, In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in.

The details of the AGM are available on the website of the Company at www.bseindia.com.

Place: Mumbai

yaari

Yaari Digital Integrated Services Limited (CIN:L51101HR2007PLC077999)

Registered Office: 5th Floor, Plot No. 108, IT Park, Udyog Vihar, Phase 1, Gurgaon - 122 016, Haryana Tel: 0124 6685800 Website: www.yaari.com, Email: sachin.ghanghas@yaari.com

NOTICE OF 17TH ANNUAL GENERAL MEETING. E-VOTING AND BOOK CLOSURE Notice is hereby given that the 17th Annual General Meeting ("AGM") of Yaari

Digital Integrated Services Limited ("the Company") is scheduled to be held on Thursday, September 26, 2024, at 11:30 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility to transact the businesses as listed in the AGM Notice dated August 28, 2024, convening the AGM in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR Regulations") read with applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). The proceedings of AGM shall be deemed to be conducted at the Registered Office of the Company. Members intending to attend the AGM through VC/OAVM may attend the AGM by following the procedure prescribed in the AGM Notice:

In compliance with the relevant circulars issued by MCA and SEBI, the Notice convening 17th AGM and Annual Report for the Financial Year 2023-24 ("Annual Report") has been sent, through electronic mode on September 3, 2024, to those Members whose e-mail address is registered with the Company / Depository Participants (DPs).

The aforesaid documents are also available on www.yaari.com, https://evoting.kfin tech.com, www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) ("the Rules") and Regulation 42 of SEBI LODR Regulations, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday, September 20, 2024 to Thursday, September 26, 2024 (both days inclusive) for annual closing (for the purpose of AGM).

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Rules and Regulation 44 of the SEBI LODR Regulations and applicable Circulars, the Company is providing remote e-voting facility to all its Members to exercise their right to vote on the resolutions listed in the AGM Notice and has availed the services of KFin Technologies Limited ("KFintech") for providing VC facility and e-voting. The detailed procedure for attending the AGM through VC/OAVM and the e-voting is provided in the AGM Notice. The AGM Notice also contains Instructions/details with regard to process of obtaining Login credentials by Shareholders, holding shares in physical form or in electronic form, who have not registered their e-mai address either with the Company or their respective DPs.

Some of the important details regarding the remote e-voting and VC/OAVM facility are provided below

Link to VC https://emeetings.kfintech.com/			
Link for remote e-voting	For Individual Members: https://www.evoting.nsdl.com/ (holding securities in demat mode with NSDL) https://www.cdslindia.com/ (holding securities in demat mode with CDSL) For non-Individual Members and Members holding shares in physical form: https://evoting.kfintech.com Thursday, September 19, 2024. The voting rights of Members shall be in proportion to their shares in the paid-up equity share capital of the Company, as on Thursday, September 19, 2024.		
Cut-off date for determining the Members entitled to vote through remote e-voting or during the AGM			
Commencement of remote e-voting period	Monday, September 23, 2024 at 10.00 A.M.		
End of remote e-voting period	Wednesday, September 25, 2024 at 5.00 P.M.		

The remote e-voting shall be disabled by KFintech at 5:00 PM on September 25, 2024 and thereafter the Members shall not be able to vote through remote e-voting. e-voting, insta-poll (e-voting) facility will also be made available during the AGM Further, the Members who have cast their votes through remote e-voting may attend the AGM through VC/OAVM.

Members holding shares in physical form or those who have not registered their e-mail ID with the Company/RTA/DPs or the persons who becomes a Member of the Company after the dispatch of the AGM Notice and holds shares as on the cut-off date i.e. September 19, 2024 may obtain the User ID and password in the manner as mentioned in the Notice and can cast their vote through remote e-voting or through insta-poll (e-voting) during the meeting. Detailed instructions are provided in the AGM Notice.

All documents referred to in the AGM Notice and the Explanatory Statement are available on the website of the Company for Inspection by the Members.

Manner of registering/updating e-mail address:

Place: Gurugram

Date: September 03, 2024

- Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their e-mail address with the Company, are requested to register/update their e-mail address by submitting Form ISR-1 (available on the website of Company and KFintech at https://yaari.com/ and https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx, respectively) duly filled and signed along with the supporting documents to KFin Technologies Limited, Selenium, Tower B, Plot No. 31 & 32 Financial District, Nanakramguda. Serilingampally, Hyderabad Rangareddy -500032, Telangana.
- b) Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered/updated their e-mail address, are requested to register/update their e-mail address with the Depository Participant(s), where they maintain in their demat accounts.

Mr. Raj Kumar (Membership No. 501863), Proprietor of M/s. AMRK & Associates, Practicing Chartered Accountant, Gurugram has been appointed as Scrutinizer in accordance with the Provisions of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) to act as Scrutinizer for e-voting

In case of any query / grievance(s) connected with attending the AGM through VC/OAVM or the electronic voting. Members may contact Ms. C Shobha Anand. KFin Technologies Limited Unit: Yaari Digital Integrated Services Limited. Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda Hyderabad - 500 032, Tel: +91 40 6716 2222, Toll Free No.: 1-800-309-4001 E- evoting@kfintech.com.

By Order of the Board For Yaari Digital Integrated Services Limited Sachin Ghanghas Company Secretary Membership No. ACS: 53430

CIN: L72200MH1982PLC175476

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS FOR 42nd ANNUAL

NOTICE is hereby given that the 42nd Annual General Meeting of the Shareholders of ACI Infocom Limited will be held on Friday 27th September, 2024 at 11.00 A.M. at Registered Office at Shop 109,1st Floor, Dimple Arcade Premises CHS Ltd Asha Nagar, Thakur Complex, Kandivali East, Mumbai - 400101 to transact business as set out in the notice of AGM which is being circulated for convening this AGM. The Company has sent notice of AGM on 3rd September, 2024, to the Members whose e-mail address are registered with the Company/Depositories unless any member has requested for a hard copy of the same. Hard copies of the Annual Report are being sent by the permitted mode to those Members who have not registered their e-mail addresses. The Annual Report for the financial year 2023-2024 is available and can be downloaded from the Company's website www.acirealty.co.in and the website of National Securities Depository Limited (NSDL) www.evoting.nsdl.com In Compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act,

The remote e-voting period commences at 9.00 a.m. on Tuesday 24th

The members who have cast their votes by remote e-voting prior to

entitled to cast their votes again. Any person who acquires shares of the Company and becomes a

For details relating to remote e-voting please refer to the Notice of

at www.acirealty.co.in, NSDL at www.evoting.nsdl.com , BSE Limited Date: 03/09/2024 For Aci Infocom Limited

Kushal Chand Jain

DIN: 03545081 **Managing Director**

Indiabulls

INDIABULLS ENTERPRISES LIMITED CIN: U71290HR2019PLC077579

Registered Office: 5th Floor, Plot No. 108, IT Park, Udyog Vihar, Phase 1, Gurgaon - 122 016, Haryana Tel: 0124 - 6685 800, Website: www.indiabullsenterprises.com, Email: chadda.deepak@ibenterprises.in

NOTICE OF 6TH ANNUAL GENERAL MEETING. E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 6th Annual General Meeting ("AGM") of INDIABULLS ENTERPRISES LIMITED ("the Company") is scheduled to be held on Thursday, September 26, 2024, at 02:30 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility to transact the businesses as listed in the AGM Notice dated August 28, 2024, convening the AGM in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act. 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR Regulations") read with applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") The proceedings of AGM shall be deemed to be conducted at the Registered Office of the Company. Members intending to attend the AGM through VC/OAVM may attend the AGM by following the procedure prescribed in the AGM Notice.

In compliance with the relevant circulars issued by MCA and SEBI, the Notice convening 6th AGM and Annual Report for the Financial Year 2023-24 ("Annual Report") has been sent, through electronic mode on September 3, 2024, to those Members whose e-mail address is registered with the Company / Depository

The aforesaid documents are also available on www.indiabullsenterprises.com. https://evoting.kfintech.com, www.bseindia.com and www.nseindia.com,

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) ("the Rules") and Regulation 42 of SEBI LODR Regulations, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday, September 20, 2024 to Thursday, September 26, 2024 (both days inclusive) for annual closing (for the purpose of AGM).

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Rules and Regulation 44 of the SEBI LODR Regulations and applicable Circulars, the Company is providing remote e-voting facility to all its Members to exercise their right to vote on the resolutions listed in the AGM Notice and has availed the services of KFin Technologies Limited ("KFintech") for providing VC facility and e-voting. The detailed procedure for attending the AGM through VC/OAVM and the e-voting is provided in the AGM Notice. The AGM Notice also contains Instructions/details with regard to process of obtaining Login credentials by Shareholders, holding shares in physical form or in electronic form, who have not registered their e-mail address either with the Company or their respective DPs.

Some of the important details regarding the remote e-voting and VC/OAVM facility are provided below:

Link to VC	https://emeetings.kfintech.com/ For Individual Members: https://www.evoting.nsdl.com/ (holding securities in demat mode with NSDL) https://www.cdslindia.com/ (holding securities in demat mode with CDSL) For non-Individual Members and Members holding shares in physical form: https://evoting.kfintech.com Thursday, September 19, 2024. The voting rights of Members shall be in proportion to their shares in the paid-up equity share capital of the Company, as on Thursday, September 19, 2024.	
Link for remote e-voting		
Cut-off date for determining the Members entitled to vote through remote e-voting or during the AGM		
Commencement of remote e-voting period	Monday, September 23, 2024 at 10.00 A.M.	
End of remote e-voting	Wednesday, September 25, 2024 at 5.00 P.M.	

The remote e-voting shall be disabled by KFintech at 5:00 PM on September 25, 2024 and thereafter the Members shall not be able to vote through remote e-voting. However to enable the Members, who have not cast their vote through remote e-voting, insta-poll (e-voting) facility will also be made available during the AGM. Further, the Members who have cast their votes through remote e-voting may attend the AGM through VC/OAVM.

Members holding shares in physical form or those who have not registered their e-mail ID with the Company/RTA/DPs or the persons who becomes a Member of the Company after the dispatch of the AGM Notice and holds shares as on the cut-off date i.e. September 19, 2024 may obtain the User ID and password in the manner as mentioned in the Notice and can cast their vote through remote e-voting or through insta-poll (e-voting) during the meeting. Detailed instructions are provided in the AGM Notice.

All documents referred to in the AGM Notice and the Explanatory Statement are available on the website of the Company for Inspection by the Members.

Manner of registering/updating e-mail address:

- a) Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their e-mail address with the Company, are requested to register/update their e-mail address by submitting Form ISR-1 (available on the website of Company and KFintech at www.indiabullsenterprises.com/ and https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx, respectively) duly filled and signed along with the supporting documents to KFin Technologies Limited, Selenium, Tower B. Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda. Serilingampally, Hyderabad Rangareddy - 500032, Telangana.
- b) Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered/updated their e-mail address, are requested to register/update their e-mail address with the Depository Participant(s), where they maintain in their demat Mr. Nishant Mittal (Membership No. 553860), Proprietor of M/s, N Mittal &

Associates, Practicing Chartered Accountant, Gurugram has been appointed as Scrutinizer in accordance with the Provisions of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) to act as Scrutinizer for e-voting process.

In case of any query / grievance(s) connected with attending the AGM through VC/OAVM or the electronic voting, Members may contact Ms. C Shobha Anand, KFin Technologies Limited Unit: Indiabulls Enterprises Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032, Tel: +91 40 6716 2222, Toll Free No.: 1-800-309-4001; E- evoting@kfintech.com.

Place: Gurugram

Date: September 3, 2024

For Indiabulls Enterprises Limited Deepak Chadda Company Secretary Membership No. ACS: 62593

By Order of the Board



BANSAL WIRE INDUSTRIES LIMITED CIN: L31300DL1985PLC022737

Registered Office: F-3, Main Road Shastri Nagar, Delhi-110052 **Ph**: 011-23651891/92/93

E-mail: investorrelations@bansalwire.com; **Website:** www.bansalwire.com

NOTICE OF 39TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the

rules framed thereunder ("the Act") read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 19/2021 dated December 8, 2021, Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021, Circular No. 2/2022 dated May 5, 2022, Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 and Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular No. SEBI/ HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, Circular No. SEBI/HO/ CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/ CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India in this regard (hereinafter collectively referred as "Circulars"). Notice is hereby given that the Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Monday, September 30, 2024 at 01:00 P.M.(IST), through Video Conferencing(VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business that will be set forth in the Notice of AGM. The deemed venue of the 39th AGM will be Registered Office of the Company. As the 39th AGM is being convened through VC/ OAVM, physical presence of the members at the venue is not required. In Compliance with the above referred Circulars, Notice of the 39th AGM and Annual

Report of the Company for the Financial Year ended March 31, 2024 will be sent, in due course, only by e-mail to those Members, whose e-mail address is registered with their respective Depository Participants ("DPs"). Since the entire shareholding of the Company is in dematerialized form, the members may update their email id with the concerned depository before September 05, 2024 for AGM Notice and Annual Report 2023-24. The requirement of sending physical copies of the Annual Report (including notice of the AGM) has been dispensed with vide above-mentioned Circulars. However, a Member may demand the hard/soft copy of the same by writing to us at investorrelations@bansalwire.com. Notice of the 39th AGM and Annual Report will also be made available on Company's website www.bansalwire.com, Stock Exchange's website (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") (www.evoting.nsdl.com).

Manner of casting vote(s) and attending AGM

Remote e-voting (prior to 39th AGM) and e-voting (during the 39th AGM) facility will be provided to all Members to cast their votes on all the resolutions set out in Notice of the 39th AGM. Detailed instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM will be provided in Notice of the 39th AGM.

Members can join and participate in the 39th AGM through VC/OAVM facility only. Members participating through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning quorum under Section 103 of the Act. Detailed instructions for joining the AGM through VC/OAVM will be provided in the Notice of the 39th AGM.

of any query regarding e-voting. Members may contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at 022-4886 7000 or send request at evoting@nsdl.com or write an e-mail to the Company Secretary and Compliance Officer of the Company at investorrelations@bansalwire.com. Manner of registering/updating e-mail address and other details

of their e-mail address, bank account, change of postal address and mobile number etc. to their respective DPs. The e-mail address registered with the DPs will be used for sending all the communications.

Members holding shares in Demat form are advised to register/update the particulars

Members of the Company.

Date: September 03, 2024 Place: New Delhi **Company Secretary and Compliance Officer**



Balmer Lawrie & Co. Ltd.

(A Government of India Enterprise) Registered Office: 21, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001 CIN: L15492WB1924GOI004835 Telephone No.: 033 2222 5612 E-mail: bhavsar.k@balmerlawrie.com Website: www.balmerlawrie.com

NOTICE OF THE 107[™] ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) AND E-VOTING INFORMATION

The 107" Annual General Meeting (AGM) of the Members of Balmer Lawrie & Co. Ltd ("the Company") will be held on Thursday, 26" September, 2024 at 12 Noon IST through Two - Way Video Conferencing ("VC") or Other Audio-Visual Means ("OAVM") without the physical attendance of Members, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the allied Rules made there under, read with para 3 and 4 of Ministry of Corporate Affairs ("MCA") General Circular No.20/2020 dated 5" May, 2020 read with para 3 A of General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, sub para (i) A of General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020 and General Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023 ("the MCA") Circulars") to transact the businesses set out in the Notice calling the AGM through voting

The Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2023-24 has been sent on Tuesday, 3" September, 2024 to shareholders holding the shares of the Company as on the cut-off date i.e. Friday, 23" August, 2024 (end of day) in the prescribed mode as per MCA Circulars and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Master Circular bearing reference no. SEBI/HO/CFD/POD2/CIR/P/2023/120 dated 11" July, 2023 read with SEBI Circular bearing reference no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD2/P/CIR/2023/167 dated 7th October, 2023. The Notice and the Annual Report are also available on the website of the Company at https://www.balmerlawrie.com, on the website of the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Company are listed i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of KFin Technologies Limited ("KFIN" (Registrar and Share Transfer Agent and Agency for providing the e-voting facility) on https://www.evoting.kfintech.com

The Company is providing to its Members the facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at 107"AGM by electronic means ("e-voting") Members may cast their votes remotely, using the electronic voting system of KFIN on the dates mentioned herein below ("remote e-voting"). Further, the facility for voting through electronic voting system will also be made available during the AGM and Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM. The detailed instructions regarding attending AGM remote e-voting and e-voting is provided in the notice of the AGM.

The remote e-voting facility will be available during the following voting period: Commencement of remote e-voting: Monday, 23" September, 2024 at 09:00 A.M. End of remote e-voting: Wednesday, 25° September, 2024 at 05:00 P.M. A Member whose name is recorded in the register of Members or in the register of

beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Thursday, 19" September, 2024 (end of day) only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting during the AGM

The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time. The remote e-voting module shall be forth with disabled by KFIN upon expiry of the aforesaid period. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cutoff date i.e., Thursday, 19" September, 2024 (end of day), may cast their vote

The members who are holding shares in physical form or who have not registered their e-mail addresses with the Company can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting system provided during the AGM as per the instructions contained in the aforesaid Notice of the AGM.

The Members of the Company who hold shares in physical form and have not registered their e-mail addresses with the Company are requested to submit requisite ISR Form along with supporting documents to KFin through the modes described in the Notice of AGM. Members may contact M/s. KFin Technologies Limited, the Registrar & Share Transfer Agent (RTA) of the Company at the below mentioned details for registering their e-mail addresses:

Unit - Balmer Lawrie & Co. Ltd.

- Selenium Building, Tower-B, Plot No.- 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana - 500032 Phone Number- 18003094001,
- iii. email: einward.ris@kintech.com Members holding shares in demat form may contact their respective Depository

Participants for registration of e-mail Ids and other details.

A Member may participate in the 107" AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.

Any person, who has acquired shares and becomes a Member of the Company after the

dispatch of the Notice and holding shares as on cut-off date i.e., Thursday, 19" September, 2024 (end of day) may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@kfintech.com. However, if he / she is already registered with NSDL, CDSL or KFintech for remote e-voting then he / she can use his / her existing User ID and

passwords for casting the vote. Contact details: In case of any query / grievance, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting User Manual available at the 'download' section of https://evoting.kfintech.com or the grievances may be addressed to Shri G Ramdas, Senior Manager, KFin Technologies Limited, Selenium Building, Tower-B, Plot No.- 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana - 500032, or send an e-mail to einward.ris@kintech.com or call on 18003094001 (toll free).

The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday, 20th September, 2024 to Thursday, 26th September, 2024 (both days inclusive). Upon declaration by the Members, dividend for the Financial Year 2023-24 shall be paid

to those shareholders who are holding shares of the Company as on the cut-off date i.e. Thursday, 19th September, 2024 (end of day) within the statutory time limit of 30 days from the date of such declaration. Shri Navin Kothari, Proprietor of M/s. N. K & Associates, Practicing Company

Secretaries, (Membership No. FCS 5935 and Certificate of Practice No. 3725) has been appointed to act as a scrutinizer for the e-voting process to ensure that the same is conducted in a fair and transparent manner. FOR BALMER LAWRIE & CO. LTD.

> Kavita Bhavsar Company Secretary F4767

PRIME INDUSTRIES LIMITED (CIN: L15490PB1992PLC012662)

Read. Office: Master Chambers, 19, Feroze Gandhi Market, Ludhiana - 141001, Punjab, Phone: 0161-5043500, 513

Website: www.primindustrieslimited.com, E-mail: prime_indust@yahoo.com

NOTICE OF 32nd ANNUAL GENERAL MEETING. REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 32nd Annual General Meeting of Members of the Company will be held on Monday, 30th day of September 2024, at 5.00 P.M. at Hotel Silver Stone, D - Block, SCO. 14-15, Dugri Rd, Near Libra Bus Service, Opposite Radha Swami Fatak, D-Block, Model Town Extension, Model Town, Ludhiana, Punjab 141002 to transact the businesses set out in the Notice convening the meeting ("the Notice") for the Financial Year 2023-24.

In compliance with MCA circulars and SEBI circular dated May 13, 2022, the Notice of

32nd Annual General Meeting and detailed instructions and information relating to e-

voting, has been sent through electronic mail to the members whose e-mail addresses

have been registered with the Company/RTA/Depositories and the same is also available on the Website of the Company at https://www.primeindustrieslimited.com/notice-of-agm-2023-2024.pdf and the Annual Report is available at https://www.primeindustrieslimited.com/annual-report-Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Members are provided with the

facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system (remote e-voting), provided by CDSL In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, individual shareholders holding securities in dematerialised form are allowed to vote through their Demat Account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and

email address in their Demat Accounts in order to access e-Voting facility

The e-voting period commences on Wednesday, September 25, 2024 at 10:00 AM and ends Sunday, September 29, 2024 at 5:00 PM. During this period, Members holding shares either in physical form or in dematerialised form as on Friday, September 20, 2024 i.e. cut-off date, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Those Members, who will be present in the AGM and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote during the AGM.

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on 20.09.2024. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of the Notice and holds shares on the Cut-off date, may obtain a login ID and password by sending a request to www.evotingindia.com. The Company has appointed Pooja Mahajan Kohli, Company Secretary in Practice,

Proprietor of M/s. Poola M Kohli & Associates as the Scrutinizer to scrutinize the evoting process and voting through Ballot Form in AGM, in a fair and transparent manner The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

Detailed procedure for remote e-voting / e-voting during the meeting is provided in the Notice of the AGM.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 25th September, 2024 to 30th September, 2024 (both days inclusive) for the ensuing 32nd Annual General Meeting of the Company.

In case shareholders have any gueries regarding e-voting, they may refer the Frequently

Asked Questions ('FAQs') and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or send an e-mail at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058542/43 or 1800 225533. For Prime Industries Limited

Place: Ludhiana Date: 03.09.2024

Mohit Verma Company Secretary

CIN: L74110GJ1994PLC021352 Registered Office: 8th Floor, Office No. 810, One World West, Near Bopal Approach, SP Ring Road, Iscon - Ambali Road, Bopal, Ahmedabad – 380058, Gujarat, India. **Telephone:** +91-9898537188 Email: info@vuranusinfra.com | **Website**: www.yuranusinfra.com

YURANUS INFRASTRUCTURE LIMITED

NOTICE OF THE 30TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY AND E-VOTING **NOTICE** is hereby given that the 30th Annual General Meeting (AGM) of Members of Yuranus Infrastructure Limited will be held on Friday, September 27, 2024 at 02:00 p.m. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the Business as set out in the notice of AGM. The venue of the Meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company i.e. 8th Floor, Office No. 810, One World West, Near Bopal Approach, SP Ring Road, Iscon - Ambali Road, Bopal, Ahmedabad - 380058, The Government of India, Ministry of Corporate Affairs has allowed conducting the General

Meeting ("Meeting") through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means

("OAVM"), and dispended the personal presence of the members at the meeting. Accordingly, the Ministry of Corporate Affairs issued the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, the General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, the General Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022 and General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 prescribing the procedures and manner of conducting the General Meeting through VC/ OAVM. In terms of the said circulars, the Annual General Meeting (AGM) of the members will be held through VC/OAVM. Hence, members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only. The **Notice** of **AGM** along with **Explanatory** Statement have been sent through electronic mode only to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories. Member may note that the **Notice** of **AGM** and **Explanatory Statement** have been uploaded on the website of the Company at www.yuranusinfra.com, website of BSE Limited at www.bseindia.com, and website of National Securities Depository Limited (NSDL) i.e. www.evoting.nsdl.com. Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and Members who have not registered their email address will be able to cast their vote electronically on the business

Further, Stakeholders take note that, Notice convening AGM has been dispatched to the Shareholders on their registered mail ids, in case of non receipt of Notice due to incorrect mail id registered or any other reason, notice convening AGM is also available on the website of the Company at www.yuranusinfra.com, website of BSE Limited at www.bseindia.com, and website of National Securities Depository Limited (NSDL) i.e. www.evoting.nsdl.com.

as set forth in the Notice of the AGM either remotely (during remote e-voting period) or

during the **AGM** as per the manner provided in the **Notice** of **AGM** to Members.

form or physical form and who have not submitted their email addresses and in consequence to whom the Notice of AGM and Explanatory Statement could not be serviced, may temporarily get their e-mail addresses registered by following the procedure given below: a) In case shares are held in physical mode, please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by E-mail

In light of the MCA Circulars, the shareholders whether holding equity shares in Demat

In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID). Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to csyuranus@outlook.com c) Alternatively, shareholder/members may send a request to evoting@nsdl.co.in for

to csyuranus@outlook.com

procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents. The Register of Members and share transfer books of the Company will be closed from September 21, 2024 to September 27, 2024. Members whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Friday, September 20, 2024 ('Cut-off Date"), shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting on the 30th Annual General Meeting.

made thereunder (as amended) and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 (as amended) and above mentioned MCA Circulars, the Company is providing facility of remote e-voting and e-voting during the AGM to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Company has entered into an agreement with NSDL for facilitating voting through electronic means. The remote e-voting will commence on **09:00 A.M.** on **Tuesday**, **September 24, 2024** and will end on **05:00 P.M.** on **Thursday, September 26, 2024**. During this period, the Members

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rules

of the Company holding shares as on Cut-off date may cast their vote electronically (Remote E-Voting). Members may note that the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility of evoting shall be made available at the AGM; and c) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Detailed procedure for remote e-voting/ e-voting is provided in the Notice of the Annual General Meeting. Any person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company

after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cutoff date i.e. Friday, **September 20, 2024**, are requested to refer to the Notice of **AGM**, available on the website of the Company at www.yuranusinfra.com, website of BSE Limited at www.bseindia.com, and website of National Securities Depository Limited (NSDL) i.e. www.evoting.nsdl.com, for the process to be adopted far obtaining the USER ID and Password to cast the vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot Password" option available on www.evoting.nsdl.com. The Shareholders are requested to note that in terms of SEBI circular dated December 9,

2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with respective Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and E-mail ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility. Members can attend and participate in the 30th Annual General Meeting through VC/

OAVM facility only. The instructions for joining the **30th Annual General Meeting** are provided

in the Notice of the **30th Annual General Meeting**. In case the Members have any queries or issues regarding e-voting or participation in the **AGM**, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or you can write an email to evoting@nsdl.co.in or Call us: - Tel: 1800-222-990 or Members may also contact Mr. Anant Bhatt, Company Secretary of the Company at the registered office of the Company or may write an e-mail to csyuranus@outlook.com or may call on 9898537188 for any further clarification. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purposes of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. For, Yuranus Infrastructure Limited

Nitinbhai Govindbhai Patel **Chairman Cum Managing Director** DIN: 06626646

New Delhi

Sd/-

Place: Ahmedabad

Date: September 02, 2024

Place: Kolkata financialexp.epapr.in

Date: 4" September, 2024

The Company has appointed NSDL as the agency to provide e-voting facility. In case

The above information is being issued for the information and benefit of all the For Bansal Wire Industries Limited **Sumit Gupta** ... continued from previous page.

AVAILABILITY OF THE RHP: Investors are advised to refer to the RHP and the section titled "Risk Factors" on page 27 of the RHP, before applying in the Offer. A copy of the RHP shall be available on website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on the website of the Company at www.krosslimited.com and on the website of the BRLM, i.e. Equirus Capital Private Limited at www.equirus.com.

AVAILABILITY OF THE ABRIDGED PROSPECTUS: A copy of the abridged prospectus shall be available on the Website of the Company, the BRLM and the Registrar to the Offer at www.krosslimited.com, www.equirus.com and www.kfintech.com, respectively.

AVAILABILITY OF BID CUM APPLICATION FORMS: Bid cum Application Forms can be obtained from the Registered Office of KROSS LIMITED, Tel: +91 0657 2203812; BRLM: Equirus Capital Private Limited, Tel: +91 0657 2203812; BRLM: Equirus Capital Private Lim participating in the Offer. ASBA Forms will also be available on the websites of BSE and NSE and the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the Stock Exchanges and SEBI.

Sub-Syndicate Members: Axis Capital Limited, HDFC Securities Limited, ICICI Securities Limited, Nuvama Wealth and Investment Limited, Sharekhan Limited

Syndicate Member: Equirus Securities Private Limited

Escrow Collection Bank and Refund Bank: HDFC Bank Limited

Public Offer Account Bank: Axis Bank Limited . Sponsor Bank: Axis Bank Limited and HDFC Bank Limited.

UPI: UPI bidders can also Bid through UPI Mechanism.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the RHP.

For KROSS LIMITED

Adfactors 300

सरिक्षत संपत्ति का विवरण(अचल संपत्ति)

संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जो पहली मंजिल (सामने की

तरफ आरएचएस) पर बनाया जा रहा है. बिन

छत / टेरेस अधिकारों के संपत्ति पर निर्मित प्रॉप नंब

117, पहली मंजिल, खसरा नंबर 665 से बाहर, पुरा

लाल डोरा, गांव नवादा, उत्तम, उत्तम नगर, पश्चिमी

दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110059 में स्थित है। क्षेत्र माप

(वर्ग फीट में): संपत्ति का प्रकार: कारपेट एरिया, सुपर

बिल्ट अप एरिया, एरिया एड मेजरिंग संपत्ति क्षेत्रः 526.

00, 585.00, 495.00

On behalf of the Board of Directors

Debolina Karmakar

Company Secretary and Compliance Officer

मांग सूचना

वेतीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) की धारा 13 (2) के तहत, सुरक्ष

त (प्रवर्तन) नियम, 2002 (उक्त नियम) के नियम 3 (1) के साथ पठित . उक्त नियमों के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धा

13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (आईआईएफएल एचएफएल) (जिसे पहले इंडिया

इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के प्राधिकृत अधिकारी ने जारी किया है। उक्त अधिनियम की धारा 13(2)

के तहत डिमांड नोटिस, उधारकर्ता को जारी किए गए संबंधित मांग सूचना में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए निगर्त करता हैं। उपरोक्त

संबंध में, एक बार फिर उधारकर्ता को नोटिस दिया जाता है कि वह इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर नीचे दी गई राशि का

यदि उक्त उधारकर्ता आईआईएफएल एचएफएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो आईआईएफएल एचएफएल उक्त अधिनियम व

धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ पूरी तरह से उधारकर्ताओं के जोखिम, लागत और परिणामा

पर कार्यवाही कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे शाखा कार्यालय से संपर्क करें: प्लॉट नंबर 30/30ई, ऊपरी तल, मुख

नुगतान . डिमांड नोटिस की तारीख से आगे के ब्याज के साथ करें। उधारकर्ता का विवरण, डिमांड नोटिस की तिथि पर देय राशि और ऋण

Place: Jamshedpur Date: September 3, 2024

KROSS LIMITED is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations; to undertake an initial public offer of its Equity Shares and has filed the RHP dated September 2, 2024 with the RoC and thereafter with the Stock Exchanges. The RHP will be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the websites of the Stock Exchanges, i.e., the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com, respectively, on the website of the BRLM, i.e., Equirus Capital Private Limited at www.equirus.com. Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, please see the section entitled "Risk Factors" on page 27 of the RHP. Potential Biders should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision and instead should place reliance on the RHP.

This announcement does not constitute an offer of the Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and the Equity Shares to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the Company and that will contain detailed information about the Company and management, as well as financial statements. However, the Equity Shares are not being offered or sold in the United States.

Housing Finance Ltd.

सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिभिटेड निगमित कार्यालय : भूखंड सं. ४९२, उद्योग विहार, फेज-३, गुरूग्राम, हरियाणा-122016 पंजीकृत कार्यालय : 5वां तल, कुंदन भवन, आजादपुर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आजादपुर, नई दिल्ली-110033

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ के नियम ३ (1) के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम २००२ की धारा १३(२) के अंतर्गत। अधोहस्ताक्षरकर्ता ने सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचनायें 24—08—2024 निर्गत की थी, जिनमें निम्नलिखित ऋणकर्ता(ओं) (उक्त ''ऋणकर्ता(ओं)'') को उन्हें निर्गत संबंधित मांग सूचना(ओं), जिन्हें नीचे भी दिया गया है में अंकित राशियों का, प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। उपरोक्त के संबंध में, एतदद्वारा उक्त ऋणकर्ता(ओं) को एक बार पुनः सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिवसों के अंदर सूचना दिनांकित 24—08—2024 में यहां इसमें निम्नांकित देय राशि का, उक्त ऋणकर्ता(ओं) द्वारा निष्पादित अन्य प्रलेखों / आलेखों, यदि कोई, के साथ पठित ऋणानुबंध के अंतर्गत भुगतानयोग्य, निम्नांकित तिथि(यों) से लेकर के भुगतान एवं/अथवा वसूलीकरण की तिथि तक, उक्त मांग सूचना(ओं) में विवरणितानुसार भावी ब्याज के साथ भुगतान कर दें। ऋण के नियत प्रतिभुगतान की प्रतिभूति के रूप में निम्नलिखित परिसंपत्तियों को क्रमशः उक्त ऋणकर्ता(ओं) द्वारा सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास बंधककत किया गया है।

ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) के नाम	मांग सूचना	प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण		
महमूद खान पुत्र इब्राहिम खान (उधारकर्ता) 1. जरीबान पत्नी इब्राहिम खान (सह—उधारकर्ता) पता: प्लॉट नंबर सी— 11 और सी— 12, अशोक विहार मालवीय नगर, 8वीं मंजिल, फ्लैट नंबर 803, मालवीय नगर एस.ओ. (जयपुर), जयपुर, राजस्थान, (भारत)—302017, फोन नंबर— 8696965636, अन्य पता: दिल्ली गेट केबहार, कालू खान किबड़ी, नागौर, राजस्थान	मांग सूचना तिथि : 24.08.2024 रु. 31,00,933 + रु. 20,39,045 = रु. 51,39,978 / - (रुपये इक्यावन लाख उनतालिस हजार नौ सौ अड्डहत्तर मात्र) 8.8.2024 के अनुसार	पलैट संख्या 803, जो प्लॉट संख्या सी—11 अं सी—12 की आठवीं मंजिल पर, अशोक विह मालवीय नगर, जयपुर, निर्मित क्षेत्रफल 982 व फुट, में स्थित, निम्नानुसार परिसीमित है पूर्व— नंदपुरी योजना का प्लॉट, पश्चिम— प्लं संख्या सी—10, उत्तर— रोड, दक्षिण— अन्य व प्लॉट (दिनांक— 07.08.2018 को, बही सं. खंड सं. 440, पृष्ठ सं. 9, क्र. व 201803018102828 के अंतर्गत पंजीकृत है)।		
हिर राम सैनी पुत्र बुद्ध राम (उधारकर्ता) 1. आरती पत्नी हिर राम 2. सरबती देवी पत्नी बुद्ध राम (सह—उधारकर्ता) पता : बास नरबाद, अलवर, चतरपुरा, तहसील— बानसूर, राजस्थान—301024, फोन नं.—9785075016	मांग सूचना तिथि : 24.08.2024 रु. 8,02,795/— (रुपये आठ लाख दो हजार सात सौ पिचानबे मात्र) 8/8/2024 के अनुसार	खसरा क्रमांक 96 रकबा 0.3700 हेक्टेयर स्थित भूखंड, माप 145.91 वर्ग गज, ग्र बसनारबाद, तहसील— नारायणपुर, जिला अलवर में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित :- पूर्व— प्लॉट निकास, सड़क, पश्चिम दानकर्ता की भूमि, उत्तर— दानकर्ता की भू दिक्षण— नंदा राम सैनी का मकान। (31.05.20: को बही संख्या 1, खंड संख्या 25, पृष्ठ संख्या 36, क्रमांक 202203212100877 के अंतर पंजीकृत है)।		

यदि उक्त ऋणकर्तागण, उपर्युक्तानुसार सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को भुगतान करने में विफल होंगे, तो सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड उपरोक्त प्रतिभूत परिसंपित्तियों के विरुद्ध, लागतों एवं परिणामों से संबंधित उक्त ऋणकर्ताओं के संपूर्ण जोखिम पर अधिनियम की धारा 13 (4) और यथा लागू नियमावली के अंतर्गत कार्रवाई करेगी। उक्त ऋणकर्ताओं को अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित किया जाता है कि वे सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की पर्व लिखित अनुमति—सहमति के बिना उपर्युक्त परिसंपत्तियों का विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली का उल्लंघन करता है अथव उल्लंघन के लिए उकसाता है उसे अधिनियम के अंतर्गत उपलब्धानुसार कारावास दंड तथा / अथवा अर्थदंड दिया जायेगा हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी स्थान : गरुग्राम सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड दिनांक : 03-09-2024

इंडिया लीज डेवलपमेंट लिमिटेडे

पंजीकृत कार्यालयः एमजीएफ हाउस, 4/17-बी,आसफ अली शेंड, नई दिल्ली-110002 फोनः 011-41520070, फैक्स नंबरः 011-41503479, वेबसाइटः www.indialease.com, ई-मेलः info@indialease.com CIN:L74899DL1984PLC019218, GSTIN:07AAACI0149R1ZB

39वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-वोटिंग और बुक क्लोज़र की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि इंडिया लीज डेवलपमेंट लिमिटेड के सदस्यों की 39वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 को दोपहर 12.30 बजे पंजीकृत कार्यालय यानी एमजीएफ हाउस, 4 / 17—बी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली—110002 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विज्अल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से कारोबार करने के लिए एक आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी, जैसा कि 39वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित किया गया है।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 09 / 2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 को एमसीए द्वारा इस संबंध में जारी अन्य पिछले परिपत्रों के साथ पढें (सामृहिक रूप से एमसीए परिपत्र कहा जाता है) और सेबी द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी-पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 को सेबी द्वारा इस संबंध में जारी अन्य पिछले परिपत्रों के साथ पढ़ें (सामृहिक रूप से सेबी परिपत्र कहा जाता है) कंपनियों को 30 सितंबर, 2024 तक एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम बुलाने की अनुमति है। तदनुसार कंपनी की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। कंपनी ने 39वीं एजीएम की सूचना और कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, अन्य बातों के साथ-साथ 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण और अन्य वैधानिक रिपोर्ट 03 सितंबर 2024 को इलेक्ट्रॉनिक मोड़ के माध्यम से केवल उन सदस्यों को भेजने का काम पूरा कर लिया है, जिनके ईमेल पते कंपनी / आरटीए / डीपी के साथ पंजीकृत हैं।

उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.indialease.com पर "वार्षिक रिपोट" अनुभाग (https://www.indialease.com/AnnualReports23-24 New.html) के अंतर्गत और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं. अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध हैं।

सदस्य केवल VC/OAVM सविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं। VC/OAVM के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा। सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि एजीएम VC/OAVM द्वारा आयोजित की जा रही है।

इलेक्टॉनिक माध्यम से मतदानः

कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम में किए जाने वाले कारोबार के संबंध में रिमोट ई—वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है और इस उद्देश्य के लिए कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए सीडीएसएल को नियुक्त किया है। तदनुसार, एजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग सिस्टम का उपयोग करके सदस्य द्वारा वोट डालने और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा सीडीएसएल द्वारा प्रदान की जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:

- रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 23 सितंबर, 2024 को सुबह 09:00 बजे शुरू होगी और ब्धवार, 25 सितंबर, 2024 को शाम 05:00 बजे समाप्त होगी। रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति 25 सितंबर, 2024 को शाम 05:00 बजे के बाद नहीं दी जाएगी और एक बार किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई—बोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से अपना वोट डालने का अधिकार नहीं है। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है और वे वीसी /ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं, वे एजीएम में ई--वोटिंग के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे।
- 3. जिन सदस्यों के नाम "कट-ऑफ तिथि" यानी गुरुवार, 19 सितंबर, 2024 को डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर या लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, वे केवल रिमोट ई-वॉटिंग सुविधा का लाभ उठाने या एजीएम में वोट करने के हकदार होंगे। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी गुरुवार, 19 सितंबर, 2024 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूजी के उनके शेयरों के अनुपात में होंगे।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (RTA) के पास rta@alankit.com पर ईमेल भेजकर पंजीकृत करवा लें।

बुक क्लोजर

स्थानः नई दिल्ली

दिनांक: 03 सितंबर, 2024

कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 91 और सेबी (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक एजीएम के उद्देश्य से शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 से गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे।

ई-वोटिंग की प्रक्रिया 39वीं एजीएम के नोटिस के नोटस के साथ-साथ सदस्यों को भेजे गए ईमेल में भी उपलब्ध है। ई-वोटिंग के संबंध में यदि कोई प्रश्न / शिकायत है, तो उसे helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है या 18002109911 पर कॉल किया जा सकता है।

> बोर्ड के आदेश से इंडिया लीज डेवलपमेंट लिमिटेड के लिए

रोहित मदान प्रबंधक, कंपनी सचिव, अनुपालन अधिकारी और सीएफओ एसीएस - 13636



बंसल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN: L31300DL1985PLC022737 पंजीकृत कार्यालयः एफ-3, मेन रोड शास्त्री नगर, दिल्ली-110052

फोनः 011—23651891 / 92 / 93 ई—मेलः investorrelations@bansalwire.com; वेबसाइटः www.bansalwire.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित होने वाली 39वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या 19/2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021, परिपत्र संख्या 21 / 2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021, परिपत्र संख्या 2 / 2022 दिनांक ५ मई, २०२२, परिपत्र संख्या १०/२०२२ दिनांक २८ दिसंबर, २०२२ और परिपत्र संख्या 09 / 2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों ("अधिनियम") तथा इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई 2020, परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी 2021, परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई 2022, परिपत्र संख्या SEBI/ HO/CFD/PoD&2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी 2023 और परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/ CFD&PoD&2/P/CIR/2023/167 दिनांक 07 अक्टूबर 2023 (इसके बाद "परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में एतद्वारा यह सुचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को दोपहर 01:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी, ताकि एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय का संचालन किया जा सके। 39वीं एजीएम का अनुमानित स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। चंकि 39वीं एजीएम वीसी 🖊 ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की कार्यक्रम स्थल पर भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की 39वीं एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना, नियत समय में, केवल उन सदस्यों को ई—मेल द्वारा भेजी जाएगी, जिनका ई-मेल पता उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ("डीपी") के पास पंजीकृत है। चुंकि कंपनी की संपूर्ण शेयरधारिता डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में है, इसलिए सदस्य एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2023—24 के लिए 05 सितंबर, 2024 से पहले संबंधित डिपॉजिटरी के साथ अपनी ईमेल-आईडी अपडेट कर सकते हैं। वार्षिक रिपोर्ट (एजीएम की सूचना सहित) की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को उपर्युक्त परिपत्रों के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। हालांकि, कोई सदस्य हमें investorrelations@bansalwire.com पर लिखकर इसकी हार्ड/सॉफ्ट कॉपी की मांग कर सकता है। 39वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.bansalwire.com, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com और www.nseindia.com) और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

वोट डालने और एजीएम में भाग लेने का तरीका

सभी सदस्यों को 39वीं एजीएम की सुचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर वोट डालने के लिए रिमोट ई—वोटिंग (39वीं एजीएम से पहले) और ई—वोटिंग (39वीं एजीएम के दौरान) की सुविधा प्रदान की जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश 39वीं एजीएम की सूचना में दिए जाएंगे।

सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 39वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए विस्तृत निर्देश 39वीं एजीएम की

कंपनी ने ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल को एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। ई-वोटिंग के बारे में किसी भी प्रश्न के मामले में सदस्य 022-4886 7000 पर एनएसडीएल की वरिष्ठ प्रबंधक सुश्री पल्लवी म्हात्रे से संपर्क कर सकते हैं या evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं या कंपनी के कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी को investorrelations@bansalwire.com पर ई—मेल लिख सकते हैं।

ई-मेल पता और अन्य विवरण पंजीकृत/अपडेट करने का तरीका डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ई—मेल पते. बैंक

खाते, डाक पते में परिवर्तन और मोबाइल नंबर आदि के विवरण अपने संबंधित डीपी के पास पंजीकृत / अपडेट करें। डीपी के पास पंजीकृत ई—मेल पते का उपयोग सभी संचार भेजने के लिए किया जाएगा।

उपरोक्त जानकारी कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है।

> बंसल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए हस्ताक्षरकर्ता / –

दिनांकः 03 सितंबर, 2024 स्थानः नई दिल्ली

सुमित गुप्ता कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

Fabiordia CELEBRATE INDIA फैबइंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय - प्लॉट नं. : 10, लोकल शॉपिंग कॉम्लेक्स, सेक्टर बी पॉकंट—7. वंसत कृज, नई दिल्ली—110070, हेंस्र ऑफिस : सी—40, दूसरा प्रलोर ओखला इंडोरेंट्रयल एरिया फंस—II, नई दिल्ली—110020 फोन : +91-11-40692000, (CIN) : U74899DL1976PLC008436 ई—मेल : mailus@fabindia.net, वेबसाइट : www.fabindia.com 47वीं वार्षिक आम बैठक और ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

फेंबइंडिया लिमिटेड (कंपनी') की 47वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') बृहस्पतिवार, 26 सितम्बर, 2024 को प्रात: 11.30 बजे (आईएसटी) सी-42, यूसरा तत, गेट नं. 1, ओखला इंडरिट्यल एरिया फेंज-2, नई दिल्ली-110020 में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम के आयोजन की सूचना दिनांक 21 अगस्त 2024 में निर्धारित कामकाज का निष्पादन किया जाएगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ पठित उसके तहत बनाए गए नियम है अनपालन में अन्य बातों के साथ–साथ ई–बोटिंग की प्रक्रिया और पद्धति का विवरण (एसीएम से पहरू रिमोर्ट ई-बोर्टिंग के साथ ही एजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान) की प्रक्रिया से संबंधित विवरण हें साथ एजीएम के आयोजन की सूचना उन सभी सदस्यों को ई–मेल के माध्यम से भेजी गई है जिनव –मेल पते कंपनी के साथ प्रजीकृत हैं और उन सदस्यों के सबंध में जिनके ई–मेल पते कंपनी के साध पंजीकृत नहीं हैं, सूचना की मौतिंक प्रति स्वीकार्य माध्यम से सर्विस मोद द्वारा मेजी गई है । एजीएम व आयोजन की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.fabindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटर लिमिटेंड (एनएसँडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdi.com पर भी उपलब्ध है। 30 अगस्त 2024 को य तो भीतिक प्रारूप या डीमैटरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण को एजीएम व आयोजन की सुधना भेजी गई है। उक्त सुधना भेजने का कार्य दिनांक 3 सितम्बर, 2024 को पूरा ही गय

सदस्यों को एतदहारा सुचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंधन और प्रमासन) नियम, 2014 के नियम 2 के साथ पठित अधिनियमें की धारा 108 के अनुसार कंपनी ने एजीएम की सुबना में निर्धारित सभी प्रस्ताव के संबंध में सभी सदस्यों को रिमोट ई-बोटिंग के महत्यम से इलेक्ट्रोनिक पद्धति और एजीएम में बैलेट पेपर द्वारा अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान की है। रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से बोट डालने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाएगी

कट—ऑफ तिथि अर्थात् बृहस्पतिवार् 19 सितम्बर् 2024 को मौतिक प्रारूप में या क्षीमैटरियलाङ्गण्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाल सदस्यगण एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तायित संकृत्या पर रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से या एजीएम में बैलेंट पेपर के माध्यम से अपना योट दे सकते हैं। डीमैटरियलाइज प्रारूप या भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपना ई—मेल पता पंजीक त नहीं किया है, उनके लिए रिमोट ई-बोर्टिंग का तरीका एजीएम की सचना में प्रदान किया गया है रिमोट ई-वोटिंग सोमबार, 23 सितम्बर, 2024 को प्रातः 9:00 बजे (आईएसटी) प्रारंभ होगी और बुधवार 25 सितम्बर, 2024 को साथ 5:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान भीतिक प्रारूप में या डीमैटरियलाइएड प्रारूप में शेयर घोरण करने वाले सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वॉट डार सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा https://www.evoting.nsdi.com पर उपलब्ध होगी। एक बार सदस्य द्वार

किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रिमोर ई—वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा 25 सितम्बर, 2024 को साथ 5.00 बजे (आईएसटी) एटा दिया सदस्यगण कृपया नोट करें कि:

एजीएम में बेलेट पेपर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में उपरिधत उन सदस्यों जिन्होंने रिमोट ई—बोटिंग के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर अपना बोट नहीं जाला है और अन्यथा उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं गया है. कैवल वे ही बैलेट पेंपर के माध्यम से एजीएम में मतदान करने (i) जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन वे दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे: और

के समापन पर कंपनी के सदस्यों के रिजेस्टर या किपॉजिटरी द्वारा प्रस्तुत लामार्थी स्वामियों की सूची में शामिल है, केवल वे ही रिमोट ई-बोटिंग या एजीएम में बेलेट पेपर के माध्यम से वोट की सुविधा का लाम कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर अधिराहित करता है और एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी क सर्वस्य बनता है और कट्-ऑफ तिथि अर्थात् 19 सितम्बर, 2024 को शेयर धारण करता है, यह evoling@nsd.com पर अनुरोध फेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालौंकि, यदि कोई

। एक व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात बहरपतिवार, 19 सितम्बर, 2024 को व्यावसायिक घट

मौजुदा युजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है.) कंपनी के निदेशक मंजल ने श्री अरुण कुमार गुप्ता, पेशेवर कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएस 5551 जिनके पास प्रैक्टिस प्रमाणपत्र संख्या: 5066 हैं) को रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम मे बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तूरीके से जांच करने के लिए संवीक्षक नियुक्त किया है । मतदान का परिणाम एजीएम के समापन के 3 दिनों के भीतर घोषित किया जाएगा और इसे समेकित संवैक्षक की रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट (www.fabindia.com) एवं एनएसडीएल की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर प्रकाशित किया जाएगा जाएगा। परिणाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय कें

व्यक्ति इ—वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वह बोट डालने के लिए अपन

साध-साध कींपोरेट कार्यालय में भी प्रदर्शित किए जाएंगे। सदस्यगण जिन्होंने कंपनी के साथ अपना ई—मेल पता पंजीकृत / अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे श्री दिनेश जुमार जैन, कंपनी सचिव एवं मुख्य विधिक एवं अनुपालन अधिकारी से फोन ने, +91 8448838559 या dinesh jain@fabindia.net पर या stakeholders@fabindia.net पर संपर्क करके कंपनी के पास अपना ई--मेल पता पंजींकृत/अपडेट कराएं।

ई—बोटिंग से जुड़ी किसी भी पूछताछ के लिए सदस्यगण www.evoting.nsdl.com पर डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध शेयरवीरकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरवारकों के लिए ई-वीटिंग् युजर मैनुअल को अवलोकन कर सकते हैं, या दोल फ्री ने, 022-4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं वैकल्पतः सदस्यगण सुन्नी पल्लवी महात्रे, वरिष्ट प्रकाक, एनएसडीएल से evoting@nsdl.com पर संपर्क कर निवेशक मंडल के आवेशान्त्र

कृते फेंबइंडिया लिमिटेड विनेश कुमार जैन स्थान : नई दिल्ली तिथि : 03.09.2024 कम्पनी सचिव और मुख्य विधिक एवं अनुपालन अधिकारी सदस्यता सं. एफसीएस-6224 मांग सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) की धारा 13 (2) के तहत, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (उक्त नियम) के नियम 3 (1) के साथ पठित . उक्त नियमों के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (आईआईएफएल एचएफएल) (जिसे पहले इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के प्राधिकृत अधिकारी ने जारी किया है। उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस, उधारकर्ता को जारी किए गए संबंधित मांग सूचना में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए निगर्त करता हैं। उपरोक्त व संबंध में, एक बार फिर उधारकर्ता को नोटिस दिया जाता है कि वह इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर नीचे दी गई राशि का भुगतान . डिमांड नोटिस की तारीख से आगे के ब्याज के साथ करें। उधारकर्ता का विवरण डिमांड नोटिस की तिथि पर देय राशि और ऋण राशि के पुनर्भुगतान के लिए दी गई सुरक्षा इस प्रकार है:

उधारकर्ता (औ) / गारंटर(ओ) नूनी उत्तराधिकारियों का नाम	मांग सूचना की तिथि एवं राशि	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)				
ो दिनकर बलराम पांडे ोमती अंकिता तिवारी।	02-09-2024 ₹. 4,81,470.00 / -	संपत्ति का पूरा हिस्साः फ्लैट संख्या—42/25 — पॉकेट बी, मंजिल संख्या 2, कारपेट एरिया एरिया मापः 267				
गोस्पेक्टर नं.	(रुपये चार लाख इक्यासी हजार चार सौ सत्तर मात्र)	वर्ग फुट, बिक्री योग्य एरिया मापः 395 वर्ग फुट, ईडब्ल्यूएस, बसंत कुंज, पीएमए बसंतकुंज योजना,				
ाईएल10351642)	हजार चार सा सत्तर मात्र)	सेक्टर एन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत।				
टे उक्त उधारकर्ता शार्रशारीमानाच मनामानाच को गर्वोक्त भगतान करने में तिमूच रहते हैं तो शार्रशारीमानाच मनामानाच उक्त						

अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ पूरी तरह से उधारकर्ताओं व जोखिम. लागत और परिणामों पर कार्यवाही कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे शाखा कार्यालय से संपर्क करें गखा कार्यालयः 1017, दसवीं मंजिल, साइबर हाइट्स, टीसी 2/2 और टीसी 5/5, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ — 226 10 / या कॉर्पोरेट कार्यालयः आईआईएफएल टॉवर, प्लॉट नंबर 98, उद्योग विहार, फेज–IV गुड़गांव, हरियाणा। स्थानः लखनऊ , दिनांकः 04–09–2024 हस्ता / – प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए।

S(

शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, जगुआर शोरूम के बगल में, मोती नगर, नई दिल्ली या कॉर्पोरेट कार्यालयः आईआईएफएल टॉवर, प्लॉट नंबर 98, उद्योग विहार, फेज–IV गुड़गांव, हरियाणा। हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए। स्थानः दिल्ली , दिनांकः 04-09-2024

मांग सूचना की तिथि एवं राशि

02-09-2024 (प्रॉस्पेक्ट संख्या

आईएल10045850) रु. 21,89,170.00 /

(रुपये इक्कीस लाख नवासी हजार एक

सत्तर मात्र) (प्रॉस्पेक्ट संख्या

आईएल10223782) रु. 33,04,721.00 / -

(रुपये तैंतीस लाख चार हजार सात सौ

इक्कीस मात्र)

अर्का फिनकेप लिमिटेड

राशि के पुनर्भुगतान के लिए दी गई सुरक्षा इस प्रकार है:

उधारकर्ता (ओं) /गारंटर(ओं) कानूनी उत्तराधिकारियों का नाम

तिवारी, (प्रॉस्पेक्ट नं.

आईएल10045850.

आईएल10223782)

श्री राजन कुमार

पंजीकृत कार्यालयः 2504, 25वीं मंजिल, वन लोढा प्लेस, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400013 महाराष्ट्र, ईमेल:- customercare@arkaholdings.com सीआईएन नंबर:- U65993MH2018PLC308329

[अचल संपत्तियों की नीलामी बिक्री हेत् बिक्री सूचना]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। इसके द्वारा आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अर्का फिनकैप लिमिटेड (जिसे इसके बाद 'प्रतिभूत ऋणदाता' कहा जाएगा) के प्राधिक त अधिकारी द्वारा उधारकर्ता(ओं) से देय राशि की वसूली के लिए यहां उल्लिखित सुरक्षित आस्तियों का कब्जा लेने के अनुसरण में, हमारे बिक्री एवं विपणन और ई-नीलामी सेवा भागीदार, मेसर्स इन्वेंटन सॉल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड (इन्वेंटऑन) के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। अचल संपत्ति की खरीद के लिए नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा नबजपवदेण्पदअमदजवदण्पद, जैसा कि नीचे वर्णित है।

उधारकर्ता(ओं)	13(2) मांग नोटिस की	संपत्तियों का	आरक्षित मूल्य	ई-नीलामी की तिथि
का विवरण	तिथि और राशि	विवरण	ईएमडी	और समय
			बोली वृद्धि राशि	
शाखाः नई दिल्ली उधारकर्ताः मेसर्स रोजझा ज्वैलर्स सह—उधारकर्ताः 1. श्री आशीष कुमार रोजझा 2. सुश्री मेघा सोनी 3. श्रीमती संतोष देवी	दिनांक: — 10 / 06 / 2024 रुपये 1,73,74,221.85 / — (रुपये एक करोड़ तिहत्तर लाख चौहत्तर हजार दो सौ इक्कीस और पैसे पचासी मात्र) ऋण खाता 2002008651 के लिए 07/06/2024 तक	निर्मित संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा जिसका नंबर आरजेड—ए—103—ए है, पुराना प्लॉट नंबर ए—103—ए, जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग गज है, खसरा नंबर 236, चक नंबर 198, गांव बिंदापुर, जीवन पार्क, पंखा रोड, उत्तम नगर, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली — 110059 और इसकी सीमाएं: पूर्व: प्लॉट नंबर आरजेड—ए—102, पश्चिम: सड़क 30 फीट, उत्तर: गली 20 फीट, दक्षिण: उक्त प्लॉट का हिस्सा	आईएनआर 20,00,000 /— (रुपये बीस लाख मात्र) आईएनआर 10,000 /—	1 नवंबर 2024, समयः सुबह 10.30 बजे से सुबह 11.30 बजे 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ

ई-नीलामी की नियम एवं शर्तेः

- 1) नीलामी बोली दस्तावेज की आगे की शर्तों और नियमों के अनुसार तथा उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाती है। बोलीदाता बोली दस्तावेजों, ई–नीलामी के लिए रखी गई सुरक्षित संपत्ति के विवरण और बोली प्रपत्र के लिए अर्का फिनकैप लिमिटेड की वेबसाइट (www.arkaholdings.com) और हमारे बिक्री एवं विपणन तथा ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट auctions.inventon.in पर जा सकते हैं, जिसे ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा, 2) सभी इच्छुक क्रेता / बोलीदाताओं को उपरोक्त वेब पोर्टल auctions.inventon.in पर अपना नाम पंजीकृत करना होगा तथा पूर्वोक्त तिथि और समय पर
- ई—नीलामी में भाग लेने के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क बनाना होगा।
- 3) किसी भी पूछताछ, जानकारी और संपत्ति के निरीक्षण, समर्थन, प्रक्रिया और ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता हमारे बिक्री और विपणन और ई–नीलामी सेवा भागीदार इन्वेंटन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के ग्राहक सेवा वितरण (सीएसडी) विभाग से टेलीफोन नंबरः + 91 9029086321 / 9833478718 और ई-मेल आईडी: care@inventon.net या manoj.das@inventon-net या अधिकृत अधिकारी, shantanu.dorlikar@arkaholdings.com के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, संपत्ति / संपत्तियों पर कोई भार नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले भार, ई–नीलामी पर रखी गई संपत्ति / संपत्तियों के शीर्षक और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों / अधिकारों / बकाया / देय के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। ई—नीलामी विज्ञापन सुरक्षित ऋणदाता / अधिकृत अधिकारी की किसी भी प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है। संपत्ति को सभी मौजूदा और भविष्य के भार के साथ बेचा जा रहा है जो सुरक्षित ऋणदाता/अधिकृत अधिकारी को ज्ञात नहीं है। अधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तीसरे पक्ष के दावों / अधिकारों / बकाया के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा,
- 4. ई—नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक क्रेता/बोलीदाताओं को विधिवत भरे हुए बोली फॉर्म की हार्ड कॉपी अर्का फिनकैप लिमिटेड, तीसरी मंजिल, संपत्ति संख्या बी 36, जोयालुक्कास ज्वेलरी के ऊपर, पूसा रोड, मेट्रो पिलर नंबर 125, नई दिल्ली, दिल्ली – 110005 में सुरक्षित लेनदार के कार्यालय की शाखा में जमा करनी होगी। साथ ही, ऊपर उल्लिखित सुरक्षित संपत्ति के ब्याज मुक्त वापसी योग्य बयाना राशि जमा (ईएमडी) के भुगतान का विवरण 'अर्का फिनकैप लिमिटेड' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से निम्नलिखित खाते के विवरण में जमा करना होगाः ए. खाते का नाम: अर्का फिनकैप लिमिटेड बी. बैंक का नामः आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड सी. बैंक का पताः सीजी रोड, अहमदाबाद डी. बैंक खाता संख्याः 032305006479 ई. आईएफएससी कोड : आईसीआईसी0001367

पैन कार्ड, आधार कार्ड, निवास पते का प्रमाण, कंपनी के मामले में बोर्ड के प्रस्तावों और पते के प्रमाण की स्व–सत्यापित प्रतियों के साथ 29 अक्टूबर 2024 को शाम 5 बजे तक या उससे पहले जमा करें।

- 5) संपत्ति को आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा। सफल क्रेता/उच्चतम बोलीदाता को ई—नीलामी पूरी होने के 24:00 घंटे के भीतर ऊपर बताए गए खाते में आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से अपनी पेशकश का 25प्रतिशत (ईएमडी सहित) जमा करना होगा, ऐसा न करने पर बिक्री विफल मानी जाएगी और उक्त सफल बोलीदाता की ईएमडी जब्त कर ली जाएगी:
- 6) ई-नीलामी में सफल न होने वाले अन्य सभी बोलीदाताओं की ईएमडी ई-नीलामी बंद होने के 72 कार्य घंटों के भीतर सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वापस कर दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।
- 7) सफल क्रेता / बोलीदाता को खरीद प्रतिफल की शेष राशि प्राधिकृत अधिकारी / सुरक्षित ऋणदाता द्वारा उक्त सुरक्षित परिसंपत्ति की 'बिक्री की पुष्टि' की तिथि से पंद्रहवें (15वें) दिन या उससे पहले या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपने विवेकानुसार लिखित रूप में तय की गई विस्तारित अवधि तक देय होगी। चूक की स्थिति में, तब तक जमा की गई सभी राशि जब्त कर ली जाएगी,
- 8) अचल संपत्ति के निरीक्षण की तिथि 29 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे के बीच है। ई—नीलामी के किसी भी चरण में, प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए और बिना किसी पूर्व सूचना के बोली/प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार/संशोधित/रद्द कर सकता है या ई—नीलामी को स्थगित कर सकता है। यदि कोई बोली अस्वीकृत हो जाती है, तो प्राधिकृत अधिकारी निजी संधि के माध्यम से संपत्ति की बिक्री के लिए किसी भी प्रस्तुत या इच्छुक बोलीदाता या अन्य पक्षों के साथ बातचीत कर सकता हैय
- 9) सफल क्रेताध्बोलीदाता को लागू कानून के अनुसार संपत्ति को अपने पक्ष में हस्तांतरित / सुपुर्द करने के लिए भुगतान किए जाने वाले किसी भी वैधानिक बकाया, कर, देय शुल्क, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि का भुगतान करना होगा,

10) बिक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पुष्टि के अधीन है, 11) कुल ऋण बकाया राशि ऋण फौजदारी राशि नहीं है। अन्य सभी शुल्क (यदि कोई हो) ऋण बंद होने के समय गणना किए जाएंगे।

12) सुरक्षित लेनदार / अधिकृत अधिकारी ऊपर बताए गए अनुसार संपत्ति पर लंबित किसी भी देनदारी के लिए जिम्मेदार नहीं है। संपत्ति की नीलामी 'जहां है, जैसी है', 'जो है, जैसी है'और 'कोई सहारा नहीं' की शर्त के आधार पर की जाएगी।

13) बिक्री समय—समय पर संशोधित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत निर्धारित नियमों / शर्तों के अधीन होगीय बिक्री को पंजीकृत कराना पूरी तरह से सफल बोलीदाता / क्रेता की जिम्मेदारी होगी। स्टांप ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, हस्तांतरण शुल्क और उपरोक्त संपत्ति की बिक्री के पंजीकरण के संबंध में किसी भी अन्य खर्च और शुल्क से संबंधित सभी खर्च सफल बोलीदाता / क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे। बिक्री को जल्द से जल्द पंजीकृत किया जाना चाहिए अन्यथा खरीदार को पंजीकरण में देरी का कारण बताते हुए सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी को अनुरोध पत्र देना होगा,

14) इच्छुक बोलीदाता / आपूर्तिकर्ता या स्वयं या उनके विधिवत् अधिकृत प्रतिनिधि के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ई—नीलामी / बिक्री कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा प्राधिकरण पत्र बोली दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है,

15) विशेष निर्देशः ई—नीलामी सेवा प्रदाता, मेसर्स इन्वेंटन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सुरक्षित ऋणदाता की ओर से पूर्व—निर्दिष्ट तिथि पर आयोजित की जाएगी, जबकि बोलीदाता अपने घर/कार्यालय/बोली के स्थान से अपनी पसंद के अनुसार आरक्षित मूल्य से अधिक मूल्य पर बोली लगाएंगे। इंटरनेट कनेक्टिविटी और अन्य सामान की आवश्यकताओं को बोलीदाताओं द्वारा स्वयं सूनिश्चित किया जाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की विफलता (किसी भी कारण से) बोलीदाताओं की एकमात्र जिम्मेदारी होगी और न तो सुरक्षित ऋणदाता का अधिकृत अधिकारी और न ही इन्वेंटन इन अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसी आकरिमक स्थिति से बचने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्थाएं / विकल्प करें, ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और फिर भी ई-नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें। हालाँकि, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे ऐसी किसी भी जटिल स्थिति से बचने के लिए बोली लगाने/अपनी बोली में सुधार करने के लिए अंतिम क्षण तक प्रतीक्षा न करें।

दिनांकः - 04/09/2024

हस्ता / – अधिकृत अधिकारी अर्का फिनकैप लिमिटेड

AKPRIOSKAT Group Company

www.readwhere.com

स्थानः – दिल्ली